

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 4—जनवरी 10, 2004, शनिवार/पौष 14—पौष 20, 1925
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 4—JANUARY 10, 2004, SATURDAY/PAUSA 14—PAUSA 20, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004

आ. अ. 3.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधान सभा 2001 के साधारण निर्वाचन जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विध बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	122—अन्थीयुर (अ. जा.)	1. थंगावेल, एम. डी., सुपुत्र दुरियन, 72—कोवलन स्ट्रीट, टीचर्स कालोनी इरोड़ जिला—638011 2. गुरुसामी वी., सुपुत्र वेलईयान, अट्टावनाईपुडुर, मुकासीपुडुर पोस्ट, भवानी (टी. के.), इरोड़ जिला— 638314 3. पुन्नुसामी, जी. सुपुत्र गोपाल, कुट्टाईमुडु, ओलागदाम पो. भवानी (टी. के.) इरोड़ जिला—638314	लेखा दाखिल नहीं किया गया।

[सं. 76/त० ना०-वि० स०/2004]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 7th January, 2004

O. N. 3.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2001 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the Contesting Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	122-Anthiyur (SC)	1. Thangavel, M.D. S/o Duraian, 72 Kovalan Street, Teachers Colony, Erode District-638011. 2. Gurusamy, V. S/o Vellaiyan, Attavanaipudur, Mukasipudur Post, Bhavani (TK), Erode District-638314. 3. Ponnusamy, G. S/o Gopal, Kuttaimedu, Olagadam P.O. Bhavani (TK), Erode District-638314.	Accounts not lodged.

[No. 76/TN-LA/2004]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.